



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1977/माघ 2, 1898

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1977/MAGHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd January 1977

SUBJECT :—*Export of Flue-cured Virginia, Sun-cured Virginia, Sun-cured 'Natu' (Country) and Sun-cured Tasty Tobacco—Fixation of minimum prices of various grades for the crops of 1975, 1976 and 1977.*

No 4-ETC(PN)/77.—It has been decided that, with immediate effect, export of different grades of Flue-cured Virginia, Sun-cured Virginia, Sun-cured 'Natu' (Country) and Sun-cured Tasty Tobacco will be allowed subject to minimum f.o.b. prices indicated in Annexures I to IV. Grades not specified in these Annexures will be free from minimum price restrictions.

ANNEXURE—I

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1977 crop

(Paise per Kg. F.O.B. packed in Bales)

Agmark Grades	NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
1	1537	1687	1635	1762	2091	2269
2	1462	1606	1556	1678	1991	2161

Agmark Grades	NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
3	1329	1463	1416	1531	1814	1971
4	1222	1348	1304	1412	1671	1819
AF	1405	1545	1496	1615	1915	2080
AS	1374	1512	1464	1581	1874	2036
AT	1361	1498	1450	1566	1856	2017
C(1-4)	1342	1477	1430	1545	1831	1990
F(1-4)	1298	1430	1384	1496	1772	1927
S(1-4)	1266	1395	1350	1461	1730	1881
T(1-4)	1235	1362	1317	1426	1688	1837
2(c)	1462	1606	1556	1678	1991	2161
3(c)	1329	1463	1416	1531	1814	1971
4(c)	1191	1315	1271	1377	1630	1774
LBV/LG	1110	1228	1186	1287	1522	1659
LBV(c)	1132	1251	1209	1312	1551	1690
LG(c)	1110	1228	1186	1287	1522	1659
LBV2	884	985	948	1036	1220	1336
LBV 2 (c)	893	994	957	1046	1232	1349
B/LMG	668	752	721	796	932	1027
B(c)	691	777	745	822	963	1060
LMG(c)	691	777	745	822	963	1060
MG/DB	420	491	465	526	608	680
MG(c)	402	475	449	509	588	659
DG	320	392	362	431	498	561
PL/Bits	320	392	362	431	498	561
Stem & Stem Bits	270
Stem Bits	122

NRL—Non-redried Leaf

NRS—Non-redried strips

RL—Redried leaf

RS—Redried strips

NRH—Non-redried hands

RH—Redried hands

N B : 1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads 50 paise per Kg. will be added to the above prices.

2. In the case of cardboard liners, used in tobacco packing 15 paise per Kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE—II

(1) Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Sun-cured Virginia tobacco of 1977 crop

(Paise per Kg. F.O.B packed in bales)

Agmark Grades	Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strip	Redried Strips
VBV	589	667	827	914
VBR	576	653	810	896
VDR	485	556	688	766
VG	227	292	383	450
VPL	173	234	311	373

(ii) Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Sun-cured 'Natu' (Country) tobacco of 1977 crop.

(Paise per Kg. F.O.B. packed in bales)

Agmark Grades	Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
CBT	761	982	1056	1160
CBR/CHBR	692	778	964	1061
CIK/CHD	608	688	852	941
CG	471	541	670	746
CPL	280	348	452	513

(iii) Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Sun-cured Jutty tobacco of 1977 crop

(Paise per Kg. F.O.B. packed in bales)

Agmark Grades	Non-redried Leaf	Redried Leaf
JBT	272	341
JBN	233	298

NB—1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads 50 paise per kg. will be added to the above prices

2. In the case of cardboard liners used in tobacco packing 15 paise per kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE—III

Minimum Export Prices for different Agmark Grades of Flue-cured Virginia Tobacco of 1976 and 1975 crops.

(Paise per Kg. F.O.B. packed in bales)

Grades	NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
1	1456	1601	1546	1668	1978	2149
2	1348	1523	1470	1588	1882	2046
3	1258	1388	1337	1448	1714	1866
4	1156	1278	1230	1335	1578	1721
AF	1330	1465	1413	1528	1810	1969
AS	1300	1433	1382	1495	1770	1926
AT	1288	1420	1369	1482	1754	1909
C	1270	1401	1350	1462	1730	1884
F	1228	1356	1306	1415	1674	1824
S	1198	1323	1274	1382	1634	1781
T	1168	1291	1243	1348	1594	1738
2(c)	1384	1523	1470	1588	1882	2046
3(c)	1258	1388	1337	1448	1714	1866
4(c)	1126	1246	1198	1302	1538	1678
LBV/LG	969	1077	1033	1127	1329	1454
LBV(c)	988	1098	1053	1154	1354	1481
LG(c)	969	1077	1033	1127	1329	1454
LBV 2	746	845	806	887	1041	1145
LBV 2 (c)	753	845	806	887	1041	1145
B/LMG	566	644	609	679	791	878
B(c)	585	664	629	701	817	905
LMG(c)	585	664	629	701	817	905
MG/DB	346	421	384	454	521	588
MG(c)	331	406	370	439	505	571
DG	263	331	298	362	425	489

Grades	NRL	RL	NRH	RH	NRS	RS
PL/Bits	263	331	298	362	425	489
Stem & Stem Bits	235
Stem Bits	100

NRL—non-redried leaf

NRS—non-redried strips

RL—Redried leaf

RS—Redried strips

NRH—Non-Redried hands

RH—Redried hands

N.B.—1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads, 50 paise per Kg. will be added to the above prices.

2. In the case of cardboard liners used in tobacco packing, 15 paise per Kg. will be added to the above prices.

ANNEXURE—IV

(i) Minimum export prices for different Agmark Grades of Sun-cured Virginia tobacco of 1976 and 1975 crops.

(Paise per Kg. F.O.B. packed in bales)

Agmark Grades	Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
VBV	516	581	701	806
VBR	475	538	670	748
VDR	392	460	571	642
VG	180	240	314	380
VPL	137	194	257	317

(ii) Minimum export prices for different Agmark Grades of Sun-cured 'Natu' (Country) tobacco of 1976 and 1975 crops

(Paise per Kg. F.O.B. packed in bales)

Agmark Grades	Non-redried Leaf	Redried Leaf	Non-redried Strips	Redried Strips
CBT	643	715	894	988
CBR/CHBR	586	655	818	906
CDK/CHD	516	581	701	806
CG	392	460	571	642
CPL	229	292	379	449

(iii) Minimum export prices for different Agmark Grades of Sun-cured Juty tobacco of 1976 and 1975 crops.

(Paise per Kg. F.O.B. packed in bales)

Agmark Grades	Non-redried Leaf	Redried Leaf
JBT	211	272
JBN	180	240

N.B.—1. In the case of tobacco packed in wooden cases or hogsheads, 50 paise per kg will be added to the above prices.

2. In the case of cardboard liners used in tobacco packing, 15 paise per kg. will be added to the above prices.

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

विषय.—ताप-अभिसाधित वर्जीनिया, धूप-अभिसाधित वर्जीनिया, धूप-अभिसाधित नाटू (कन्द्री) और धूप-अभिसाधित जुट्टी तम्बाकू का निर्यात 1975, 1976 और 1977 की फसलों के लिये विभिन्न श्रेणियों की न्यूनतम कीमतों का निर्धारण।

सं० 5-ई टी सी (पी एन)/77.—यह निश्चय किया गया है कि ताप-अभिसाधित वर्जीनिया, धूप-अभिसाधित वर्जीनिया, धूप-अभिसाधित 'नाटू' (कन्द्री) और धूप-अभिसाधित जुट्टी तम्बाकू की विभिन्न श्रेणियों के निर्यात की अनुमति 1 से 4 तक के अनुबन्धों में निर्दिष्ट न्यूनतम अहाज पर्यन्त कीमतों की शर्त के अधीन तत्काल से ही दी जाएगी। इन अनुबन्धों में निर्दिष्ट न की गई श्रेणियां न्यूनतम कीमत के प्रतिबन्धों से मुक्त होगी।

अनुबन्ध-1

विभिन्न एगमार्क, 1977 फसल के ताप-अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू की श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमते।

(पैसे प्रति कि० ग्रा० अहाज पर्यन्त निशुल्क, गांठों में पैक किये हुए)

एगमार्क ग्रेड्स	एनआरएल	आरएल	एनआरएच	आरएच	एनआरएस	आरएस
1	1537	1687	1635	1762	2091	2269
2	1462	1606	1556	1678	1991	2161
3	1329	1463	1416	1531	1814	1971
4	1222	1348	1304	1412	1671	1819
एएफ	1405	1545	1496	1615	1916	2080
एएस	1374	1512	1464	1581	1874	2036
एडी	1361	1498	1450	1566	1856	2017
सी (1-4)	1342	1477	1430	1545	1831	1990
एफ (1-4)	1298	1430	1384	1496	1772	1927
एस (1-4)	1266	1395	1350	1461	1730	1881
टी (1-4)	1235	1362	1317	1426	1688	1837
2 (सी)	1462	1606	1556	1678	1991	2161
3 (सी)	1329	1463	1416	1531	1814	1971
4 (सी)	1191	1315	1271	1377	1630	1774
एल बी वार्ड/एस जी	1110	1228	1186	1287	1522	1659
एल बी वार्ड/(सी)	1132	1251	1209	1312	1551	1690

1	2	3	4	5	6	7
एलजी (सी)	1110	1228	1186	1287	1522	1659
एलबीवाई 2	884	985	948	1036	1220	1336
एलबीवाई 2 (सी)	893	994	957	1046	1232	1349
बी/एलएमजी	668	752	721	796	932	1027
ी (सी)	691	777	745	822	963	1060
एलएमजी (सी)	691	777	745	822	963	1060
एमजी/डीबी	420	491	465	526	608	680
एमजी (सी)	402	475	449	509	588	659
डीजी	320	392	362	431	498	561
पीएल/बिद्स	320	392	362	431	498	561
स्टेम एण्ड स्टेम बिद्स	—	270	—	—	—	—
स्टेम बिद्स	—	122	—	—	—	—

एनआरएल—नान—रीड्वाइड लीक

एनआरएस—नान-रीड्वाइड स्ट्रीप्स

आरएल—रीड्वाइड लीक

आरएस—रीड्वाइड स्ट्रीप्स

एनआरएच—नान-रीड्वाइड हेड्स

आरएच—रीड्वाइड हेड्स

विशेष ध्यान दीजिये — 1. लकड़ी की पेटियो या पीवों में पैक किए हुए तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएंगे।

2. तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गत्ता लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएंगे।

अनुबन्ध-II

(1) 1977 की फसल के धूय अभिसाधन वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न आगमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें

(पैसे प्रति कि० ग्रा० जहाज पर्यन्त नि शुल्क गांठों में पैक किया हुआ)

आगमार्क श्रेणिया	नान रो-ड्वाइड लीक	रो-ड्वाइड लीक	नान-रो-ड्वाइड स्ट्रीप्स	रो-ड्वाइड स्ट्रीप्स
वीबीटी	589	667	827	914
बीबीआर	576	653	810	896
वीीआर	485	556	688	766
वीजी	227	292	383	450
वीपीएल	173	234	311	373

(2) 1977 की फसल के धूप-अभिसाधित 'नाटू' (कन्दू) तम्बाकू की विभिन्न आगमार्क श्रेणियों के लिये न्यूनतम निर्यात कीमतें।

(पैसे प्रति कि० ग्रा० जहाज पर्यन्त निःशुल्क, गांठों में पैक किया हुआ)

आगमार्क श्रेणियां	नान-री-ड्राइड लीफ	री-ड्राइड लीफ	नान-री-ड्राइड स्ट्रिप्स	री-ड्राइड स्ट्रिप्स
सीबीटी	761	852	1056	1160
सीबीआर/सीएचबीआर	692	778	964	1061
सी बीके/सीएचबी	608	688	852	941
सीजी	471	541	670	746
सीपीएल	280	348	452	513

(3) 1977 की फसल के धूप-अभिसाधित जुट्टी तम्बाकू की विभिन्न आगमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें।

(पैसे प्रति कि० ग्रा० जहाज पर्यन्त निःशुल्क, गांठों में पैक किया हुआ)

आगमार्क श्रेणियां	नान-री-ड्राइड लीफ	री-ड्राइड लीफ
जेबीटी	272	341
जेबीएन	233	298

विशेष ध्यान दीजिए — 1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किए हुए तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएंगे।

2. तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गत्ता लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति कि० ग्रा० जोड़े जाएंगे।

अनुबन्ध—III

1976 और 1975 फसल के ताप-अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न आगमार्क श्रेणियों के लिये न्यूनतम निर्यात कीमतें

(पैसे प्रति कि० ग्रा० जहाज पर्यन्त निःशुल्क, गांठों में पैक किया हुआ)

ग्रेडम	एनआरएल	आरएल	एनआरएच	आरएच	एनआरएस	आरएस
1	2	3	4	5	6	7
1	1456	1601	1546	1668	1978	2149
2	1384	1523	1470	1588	1882	2046
3	1258	1388	1337	1448	1714	1866

	1	2	3	4	5	6	7
4 . .	1156	1278	1230	1335	1579	1721	
ए एफ . .	1330	1465	1413	1528	1810	1969	
ए एस . .	1300	1433	1382	1495	1770	1926	
एटी . .	1288	1420	1369	1482	1754	1909	
सी . .	1270	1401	1350	1462	1730	1884	
एफ . .	1228	1356	1306	1415	1674	1824	
एस . .	1198	1323	1274	1382	1634	1781	
टी . .	1168	1291	1243	1348	1594	1738	
2 (सी) . .	1384	1523	1470	1588	1882	2046	
3 (सी) . .	1258	1388	1337	1448	1714	1866	
4 (सी) . .	1126	1246	1198	1302	1538	1678	
एलबीवाई/एसजी . .	969	1077	1033	1127	1320	1454	
एलबीवाई (सी) . .	988	1098	1053	1254	1354	1481	
एसजी (सी) . .	969	1077	1033	1127	1329	1454	
एलबीवाई 2 . .	746	845	806	887	1041	1145	
एलबीवाई 2 (सी) . .	753	845	806	887	1041	1145	
बी/एलएमजी . .	566	644	609	679	791	878	
बी (सी) . .	585	664	629	701	817	905	
एलएमजी (सी) . .	585	664	629	701	817	905	
एमजी/डीबी . .	346	421	384	454	521	588	
एमजी (सी) . .	331	406	370	489	505	571	
डी जी . .	263	331	298	362	425	489	
पीएल/बिट्स . .	263	331	298	362	425	489	
स्टेम एण्ड स्टेम बिट्स . .	—	235	—	—	—	—	
स्टेम बिट्स . .	—	100	—	—	—	—	

एनआरएल—नान-रीड्राइड लीफ

आरएस—रीड्राइड लीफ

एनआरएस—नान-रीड्राइड हेंड्स

आरएस—रीड्राइड हेंड्स

एनआरएस—नान-रीड्राइड स्ट्रिप्स

आरएस—रीड्राइड स्ट्रिप्स

विशेष ध्यान दीजिये .

- लकड़ी की पेटियो या पीपों में पैक किये हुये तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 50 पैसे प्रति कि० ग्राम जोड़े जायेंगे ।
- तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किए गए गत्ता लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति कि० ग्राम जोड़े जायेंगे ।

अनुबन्ध-IV

(1) 1976 और 1975 की फसलों के धूप-अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न आगमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें

(पैसे प्रति कि० ग्राम जहाज पर्यन्त निःशुल्क, गांठों में पैक किया हुआ)

आगमार्क श्रेणियाँ	नान-री-ड्राइड लीफ	री-ड्राइड लीफ	नान-री-ड्राइड स्ट्रिप्स	री-ड्राइड स्ट्रिप्स
बी बी टी	516	581	701	806
बी बी आर	475	538	670	748
बी डी आर	392	460	571	642
बी जी	180	240	314	380
बी पी एल	137	194	257	317

(2) 1976 और 1975 की फसलों के धूप-अभिसाधित 'नाटू' (बन्ट्री) तम्बाकू की विभिन्न आगमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें

(पैसे प्रति कि० ग्राम जहाज पर्यन्त निःशुल्क, गांठों में पैक किया हुआ)

आगमार्क श्रेणियाँ	नान-री-ड्राइड लीफ	री-ड्राइड लीफ	नान-री-ड्राइड स्ट्रिप्स	री-ड्राइड स्ट्रिप्स
सी बी टी	643	715	894	988
सी बी आर/सी एच बी आर	586	655	818	906
सी एल के/सी एच डी	516	581	701	906
सी जी	392	460	571	642
सी पी एल	229	292	379	449

- (3) 1976 और 1975 की फसलों के धूप-प्रभिसाधित जुट्टी तम्बाकू की विभिन्न भागमार्क श्रेणियों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें
(पैसे प्रति कि० ग्राम अठाज पर्यन्त निःशुल्क, गांठों में पैक किया हुआ)

भागमार्क श्रेणियाँ	मान-री-ड्राइड लीफ	री-ड्राइड-लीफ
जे बी टी . . .	211	272
जे बी एन . . .	180	240

विशेष ध्यान दीजिये —

1. लकड़ी की पेटियों या पीपों में पैक किये हुये तम्बाकू के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 50 पैसे प्रति कि० ग्राम जोड़े जायेंगे ।
2. तम्बाकू को पैक करने में उपयोग किये गये गत्ता लाइनर के मामले में उपर्युक्त कीमतों में 15 पैसे प्रति कि० ग्र० जोड़े जायेंगे ।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, अ यात निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977